

कार्य का विवरण

भारत रूरल लाईवलीहुड्स फाउण्डेशन (बीआरएलएफ)

1. रिक्त पद: टीम लीडर (04 पद), भारत रूरल लाईवलीहुड्स फाउण्डेशन, छत्तीसगढ़

2. बीआरएलएफ के विषय में

भारत सरकार द्वारा, सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, केन्द्र और राज्य सरकारों की भागीदारी में नागरिक सामाजिक कार्यों को गति देने के उद्देश्य से भारत रूरल लाईवलीहुड्स फाउण्डेशन की एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापना हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के जीवन और आजीविका में, खास तौर पर मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन और आजीविका में परिवर्तन लाना है।

बीआरएलएफ अपनी तरह की एक अनोखी पहल है और इस संस्था का निर्माण एक भागीदारी संस्था के रूप में हुआ है जिसमें एक तरफ भारत सरकार और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र के दाता, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रम (निगम की सामाजिक जिम्मेदारी के तहत) हैं। बीआरएलएफ का मुख्य काम नागरिक सामाजिक संगठनों को उनके प्रमाणित हस्तक्षेपों के लिये मानव-संसाधन और संस्थागत खर्चों के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, छोटे नागरिक सामाजिक संगठनों की क्षमता को बढ़ाने में निवेश करना, और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले व्यावसायिक मानव संसाधनों की क्षमता में वृद्धि करना है। अधिक जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट <http://www.brif.in> पर जाएँ।

परियोजना के बारे में

उच्च प्रभाववाली मेगा -जलोत्सारण परियोजना, छत्तीसगढ़

यह परियोजना महात्मा गांधी नरेगा ईकाई, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार और भारत रूरल लाईवलीहुड्स फाउण्डेशन और एक्सिस बैंक के बीच 5 अक्टूबर 2018 को आरंभ की गई। ऐसा अनुमान है कि इस परियोजना के, भूमि और जल संरक्षण के उपायों से, छत्तीसगढ़ राज्य के 13 जिलों के (सरगुजा, सूरजपुर, रायगढ़, कोर्बा, कोरिया, धमतरी, बलरामपुर, कांकेर, नारायनपुर, सुक्मा, बस्तर, दांतेवाडा और कवरधा) के 28 खण्डों के 7.29 लाख हेक्टेअर जलग्रहण क्षेत्र में रहने वाले लगभग एक लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त इस परियोजना का लक्ष्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, पंचायती राज संस्थाओं, समुदाय के सदस्यों और नागरिक सामाजिक संगठनों की, जलोत्सारण योजना के कार्यान्वयन के चोटी से मैदान तक के सिद्धांत के आधार पर क्षमता का निर्माण करना भी है।

3. कार्य का विवरण

मुख्य उत्तरदायित्व -

- खण्ड की टीम का नेतृत्व करना – योग्य मार्गदर्शन देना, निरीक्षण करना, टीम के सदस्यों का रोजमर्रा का प्रबंधन और सहायता तंत्र उपलब्ध कराना।
- हितधारकों की क्षमता के विकास की जिम्मेदारी लेना।
- जलोत्सारण की धारणा और सिद्धांतों के प्रति दृष्टिकोण तैयार करना, स्थानीय समुदायों के लिये जलविज्ञान और आजीविका में सुधार लाने के उपाय करना।
- काम की योजना, कार्यान्वयन, निरीक्षण की प्रक्रिया में भागीदारी को सुसाध्य बनाना।
- परियोजना में कार्यरत पंचायतों और समुदायों के सदस्यों को विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में सहायता देना।
- ग्राम सभा और पंचायतों को विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्वीकृत करने और अपनाने में सहायता देना। चिन्हित किये गए खण्डों में मनरेगा के प्रबंधन में सुधार लाने में पंचायतों की सहायता करना।
- सभी संबंधित हितधारकों – सरकारी ईकाईयाँ / पंचायती राज संस्थाएँ और ग्रामीण समुदायों के बीच स्वस्थ कार्यसंबंधों को स्थापित करना।
- ग्रामीण समुदायों को भविष्य में मनरेगा के समाप्त हो जाने के बाद आजीविका में सुधार लाने की योजनाएँ बनाने में सहायता देना।

- पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना – समय पर रिपोर्टिंग

पात्रता, अनुभव एवं दक्षताएँ

- इंजीनियरिंग/ कृषि या संबंधित क्षेत्र में स्नातक या विज्ञान/ मानविकी में प्रतिष्ठित संस्था से अनुस्नातक और हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में अच्छा संप्रेषण कौशल।
- किसानों और समुदायों के समूहों के साथ संबंध बनाने के कौशल के साथ क्षेत्र में 2-3 वर्ष का कार्यानुभव
- आवेदक में संबंधित हितधारकों/ एजेन्सियों के साथ मिलकर काम करने की और संयोजन को सुधारने की और जमीनी स्तर पर कार्य के निष्पादन की क्षमता होनी चाहिये।
- आयु मर्यादा -30 वर्ष

वाञ्छनीय दक्षताएँ:

- क) कंप्यूटर ज्ञान साथ अंग्रेजी और हिंदी में अच्छा संचार कौशल
- ख) बहु-सांस्कृतिक / बहु-विषयक टीम में काम करने की क्षमता
- ग) टीम में बहु-कार्य और अच्छी तरह से काम करने की क्षमता
- घ) आवश्यकता अनुसार यात्रा करने के लिए तैयार

4. रिपोर्टिंग अधिकारी – कार्यक्रम संयोजक

5. मासिक वेतन - ₹ 31,000/ से ₹ 47,000/ तक

6. अवधि: 6 माह (यह अवधि भविष्य में परियोजना की आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है)

7. पदों की संख्या: 4

8. नियुक्ति स्थल: छत्तीसगढ़ के गहन खण्ड मुख्यालय, खण्ड नाम – बोदला, बकवण्ड, दांतेवाडा, सुक्मा।

9. संपर्क के लिये पता-

टीम सैम्स
स्ट्रैटेजिक अलाएन्स मेनेजमेन्ट सर्विसेस प्रा. लि.
1/1बी, चौधरी हेतराम हाउस, भारत नगर,
न्यु फ्रेन्ड्स कोलोनी, नई दिल्ली – 110025
फोन. न. 011-26842162; 41653612

आवेदन प्रक्रिया

इस पद पर कार्य करने में रुचि रखने वाले पात्रता प्राप्त आवेदक कृपया <https://recruitment.samshrm.com/JOBS/BRLF> लिंक के द्वारा दिनांक 12 मार्च 2021 तक ऑनलाईन आवेदन भेजें।

टिप्पणी - बीआरएलएफ एक समान अवसर देने वाली संस्था है। योग्यता प्राप्त महिलाओं को आवेदन देने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिये आवेदक अपनी इच्छा से अपनी भाषा – हिंदी या अंग्रेजी - का चुनाव कर सकते हैं।